



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 112]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 13, 1979/फाल्गुन 22, 1900

No. 112]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 13, 1979/PHALGUNA 22, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

वाणिज्य, नागरिक आपूर्ति एवं सहकारिता मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

नई दिल्ली, 9 मार्च, 1979

आदेश

का. आ. 132(अ).—केंद्रीय सरकार की, सैंसर्स पंडम टी एस्टेट लिमिटेड 162/1/38 लेक गार्डन्स कलकत्ता-700045 के स्वामित्वधीन पंडम टी एस्टेट, हाक घर दार्जिलिंग, जिला दार्जिलिंग नामक चाय एकक की बाबत यह राय है कि—

- (1) पांच वर्ष की, अर्थात्, 1973 से 77 की, अवधि के दौरान उक्त चाय एकक को 1973 से क्रमशः चार वर्ष तक हानि हुई है;
- (2) वर्ष 1973 से 1977 के दौरान इस चाय एकक की औसत उपज, जिले की औसत उपज से पच्चीस प्रतिशत कम रही है;
- (3) चाय एकक के स्वामियों ने कर्मचारियों तथा अन्य कर्मचारियों के भविष्य निधि देयों, उत्पाद शुल्क, तथा ऐसे अन्य देयों का, जिसका संघाय करने के लिए वे तत्समय प्रयुक्त कृतिपय विधियों के अधीन बाध्य हैं संघाय करने में बाग़म्वार व्यतिक्रम किया है; और
- (4) चाय एकक की प्रबंध ऐसे ढंग से किया जा रहा है जो चाय उद्योग तथा लोक हित के लिए बहुत अपायकर है;

अतः अब केंद्रीय सरकार, चाय अधिनियम, 1953 (1953 का 29) की धारा 16ख की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त चाय एकक के मामलों का पूर्ण और व्यापक अन्वेषण करने के प्रयोजनार्थ व्यक्तियों का एक निकाय नियुक्त करती है जिसमें निम्नलिखित होंगे :—

- (1) श्री एस. एस. नन्क़ीलियार, निदेशक, चाय विकास, चाय बोर्ड, कलकत्ता
- (2) श्री पी. के. दासगुप्त, वित्तीय सलाहकार और मुख्य लेखा अधिकारी, चाय बोर्ड, कलकत्ता
- (3) श्री सी. आर. गौतम, उप-सचिव, वाणिज्य और उद्योग विभाग, पश्चिमी बंगाल सरकार, कलकत्ता
- (4) श्री ए. के. राय चौधरी, उप सलाहकार (वित्त), लेक उद्यम व्यूरो, मयूर भवन, नई दिल्ली।
- (5) आर. सी. निगम, संयुक्त निदेशक (लेखा) क्षेत्रीय निदेशक, कम्पनी विधि बोर्ड, कलकत्ता।

2. उक्त निकाय इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 90 दिन की अवधि के भीतर अपनी रिपोर्ट केंद्रीय सरकार को प्रस्तुत करेगा।

[सं. श्री. 12012(1)/76 प्लान्ट (ए)]

टी. बालाकृष्णन, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND
COOPERATION**

(Department of Commerce)

New Delhi, the 9th March, 1979

ORDER

S.O. 132(E).—Whereas the Central Government is of opinion in respect of the tea unit known as Pandam Tea Estate, P.O. Darjeeling, District Darjeeling owned by M/s. Pandam Tea Co. Ltd., 162/A/38, Lake Gardens, Calcutta-700045, that :—

- (i) out of the period of five years, 1973—77, the tea unit has made losses consecutively for four years from 1973 ;
- (ii) the average yield of the tea unit during the years 1973 to 1977 has been lower than the district average yield by twenty-five per cent ;
- (iii) the persons owning the tea unit have habitually made default in the payment of provident fund dues to workers and other employees, duties of excise and other dues as they are under an obligation to pay under certain laws for the time being in force ; and
- (iv) the tea unit is being managed in a manner highly detrimental to the tea industry and to public interest ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 16B of the Tea Act, 1953 (24 of 1953), the Central Government hereby appoints for the purpose of making a full and complete investigation into the affairs of the said tea unit, a body of persons consisting of ;

- (1) Shri S. S. Nandkeelkar, Director of Tea Development, Tea Board.
- (2) Shri P. K. Das Gupta, Financial Adviser and Chief Accounts Officer, Tea Board.
- (3) Shri C. R. Gautam, Deputy Secretary, Department of Commerce and Industries, Government of West Bengal, Calcutta.
- (4) Shri A. K. Roychowdhury, Deputy Adviser (Finance) Bureau of Public Enterprises, Mayur Bhavan, New Delhi.
- (5) Shri R. C. Nigam, Jt. Director (Accounts) O/O, the Regional Director, Company Law Board, Calcutta.

The said body shall submit its report to the Central Government within a period of 90 days from the date of publication of this order in the Official Gazette.

[F. No. B-12012(4)/78-Plant(A)]

T. BAI AKRISHNAN, Jt. Secy.